



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042021-226372
CG-DL-E-06042021-226372

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 2021/ चैत्र 15, 1943 (शक)
No. 22] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 2021/ CHAITRA 15, 1943 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 5th April, 2021/ Chaitra 15, 1943 (Saka)

CORRIGENDA

In the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2021 (Ord.3 of 2021), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 4th April, 2021, Issue No. 21,—

- (i) in page 3, line 31, for "preliminary information", read "preliminary information memorandum";
- (ii) in page 3, line 34, for "insolvency date", read "insolvency commencement date";
- (iii) in page 22, line 5, for "in under clause (b)", read "in clause (b)";
- (iv) in page 27, line 20, for "cause (c)", read "clause (c)".

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.